



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

133

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मलिकियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री सिरस सुब्रित सी०जे०

पता: सेक्ट मेरी वातवेन्ट मिला /पति का नाम श्री  
लॉट न० 21/23ई सिविल स्टेशन धर्मद्वारा रोड (निकरपुर)  
मुहल्ला बसोरापुर कोलोनियल इलाहाबाद गार्ड नम्बर

में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के सिन्डिगेट भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।



56/प्र०अ०(क०)10-1)  
29.08.2011

सचिव  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद


नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत चंगह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।
2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, नाली या नाली पर बढ़ा कर प्राज्ञोपदेशन जैसे कि पोटिंगो, बारजा, तोड़या, सीढ़ी, झप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसी अपने खर्चों से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंग्लैंड-न इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

OWNER: THE UNITED SHAWMUT MUTUALITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY  
 PRESIDENT: SR. SHANTI (C.A.)  
 RA. K. K. MISHRA  
 SCALE: 1:100  
 ALLAHABAD  
 ROAD (CHIKAPURA) NASIBPUR BAKHTIYARA  
 PLOT NO. 21, 23/1E CIVIL STATION THORNHILL  
 NURSERY & PRIMARY SCHOOL ON FREEHOLD  
 EXISTING & PROPOSED BUILDING PLAN OF

SHEET No. 1/2

1312.45 SQ.M.	TOTAL AREA
1312.45 SQ.M.	ROAD MARGINS AREA
1312.45 SQ.M.	NET AREA
1312.45 SQ.M.	TOTAL EXISTING AREA ON G.F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON G.F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 1 <sup>ST</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 2 <sup>ND</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 3 <sup>RD</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 4 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 5 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 6 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 7 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 8 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 9 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 10 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 11 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 12 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 13 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 14 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 15 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 16 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 17 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 18 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 19 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 20 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 21 <sup>ST</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 22 <sup>ND</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 23 <sup>RD</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 24 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 25 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 26 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 27 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 28 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 29 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 30 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 31 <sup>ST</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 32 <sup>ND</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 33 <sup>RD</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 34 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 35 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 36 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 37 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 38 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 39 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 40 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 41 <sup>ST</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 42 <sup>ND</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 43 <sup>RD</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 44 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 45 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 46 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 47 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 48 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 49 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 50 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 51 <sup>ST</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 52 <sup>ND</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 53 <sup>RD</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 54 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 55 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 56 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 57 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 58 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 59 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 60 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 61 <sup>ST</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 62 <sup>ND</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 63 <sup>RD</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 64 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 65 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 66 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 67 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 68 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 69 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 70 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 71 <sup>ST</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 72 <sup>ND</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 73 <sup>RD</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 74 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 75 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 76 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 77 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 78 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 79 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 80 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 81 <sup>ST</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 82 <sup>ND</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 83 <sup>RD</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 84 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 85 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 86 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 87 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 88 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 89 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 90 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 91 <sup>ST</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 92 <sup>ND</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 93 <sup>RD</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 94 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 95 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 96 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 97 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 98 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 99 <sup>TH</sup> F.
1312.45 SQ.M.	PROPOSED AREA ON 100 <sup>TH</sup> F.



NOTE: (LOOK IN) LIME CONC. IN FOUNDATION ROOMS OVER R.C.C. SLAB

1. Foundation and all other works shall be done as per approved drawings.

2. All works shall be done in accordance with the specifications mentioned in the drawings.

3. The contractor shall be responsible for the safety of the workers and the public.

4. The contractor shall provide all necessary safety equipment and facilities.

5. The contractor shall maintain the site clean and free from debris.





6. The contractor shall provide access to the adjacent properties at all times.

7. The contractor shall be responsible for the removal of all waste materials.

8. The contractor shall provide all necessary permits and approvals.






9. The contractor shall be responsible for the completion of the work within the stipulated time.

10. The contractor shall be responsible for the quality of the work.




COOR. WINDOW SCHEDULE

Sl. No.	Window Size
1	1.00 x 2.00
2	2.00 x 2.00
3	2.00 x 2.00
4	1.00 x 2.00
5	1.50 x 1.50
6	1.20 x 1.20



COLVIN ROAD  
131.40



EXISTING AREA BLOCK A = 1731.93 Sq.Mt.  
EXISTING AREA BLOCK B = 593.95 Sq.Mt.  
EXISTING AREA BLOCK C = 598.95 Sq.Mt.  
TOTAL EXISTING AREA = 2925.83 Sq.Mt.

**OWNER:**  
MR. SR. SUMITA (G.J.)  
THE UNITED PROVINCES  
BLESSED VIRGIN MARY

**SIGNATURE:**  
*Mr. Sumita*  
SIG. OF OWNER

**SCALE:** 1:100

**SECTION OF STAIR CASE:**  
TREAD - 250  
RISER - 150  
G.R. R.F. S.F. T.H.K.

THORNHILL ROAD  
90.95

THORNHILL ROAD  
90.95

90.95

12.50

21.34

24.44

42.68

4.72

16.15

29.58

17.08

30.38

7.31

41.14

30.79

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00